



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2435]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 19, 2012/अग्रहायण 28, 1934

No. 2435]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 19, 2012/AGRAHAYANA 28, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2936(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79ए के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित जिलों, तालुकों, पुलिस थानों और गाँवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भू-खंड के संबंध में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79ए पर भूमि का अर्जन

क्र. संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूखंड	जिला	तहसील/तालुक	पुलिस थाना	गाँव का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़	रा.रा. 79ए के 0 +000 कि.मी. से 16 +000 कि.मी. तक	अजमेर	किशनगढ़	(1) किशनगढ़ (2) श्रीनगर	1 नयागांव 2 किशनगढ़ 3 सिलोरा 4 उदयपुर कलां 5 टिकावड़ा

[फा. सं. भाराराप्रा/एनएचडीपी-V/एमसी-II/बीओटी/केयू/एलए/पीआईयू-उदयपुर]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2012

S.O. 2936(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to districts, taluks, police stations and villages mentioned in columns (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening/six-laning etc.) maintenance, management and operation for the National Highway No. 79A in the State of Rajasthan.

SCHEDULE

Land Acquisition on National Highway No. 79A in the State of Rajasthan

Serial Number	Competent Authority	Stretch of land	District	Tehsil/Taluka	Police Station	Name of Village
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sub-Divisional Officer, Kishangarh	Km 0 + 000 to Km 16 + 000 of NH-79A	Ajmer	Kishangarh	(1) Kishangarh (2) Shrinagar	(1) Nayagaon (2) Kishangarh (3) Silora (4) Udaipur Kalan (5) Tikawada

[F. No. NHAI/NHDP-V/MC-II/BOT/KU/LA/PIU-Udaipur]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.